

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 31.07.2021 जनपद देवरिया

01. देवरिया पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध अभियान जारी, भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद करते हुए 28 अभियुक्त को गिरफ्तार कर 28 अभियोग पंजीकृत किये गए

कच्ची शराब के विरुद्ध दिनांक 30.07.2021 से चलाए जा रहे अभियान के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत दबिश देकर काफी मात्रा में लहन व भट्टियों को नष्ट करते हुए कच्ची शराब की बरामदगी कर संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी, इसी क्रम में दिनांक 31.07.2021 को जिलाधिकारी देवरिया श्री आशुतोष निरंजन व पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र के निर्देशन में से चलाए जा रहे अभियान के दौरान समस्त उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी व आबकारी अधिकारीगण के नेतृत्व में समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध अभियान के क्रम में अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत संभावित स्थानों पर दबिस देते हुए कुल 300 लीटर अवैध कच्ची/अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए 28 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनके विरुद्ध विभिन्न थानों पर कुल 28 अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02.वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी:-

दिनांक 30.07.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा 03 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनका विवरण निम्नवत है

➡थाना गौरीबाजार —मु0अ0स0 63/2021

धारा 363 भा0द0वि0 नाम पता अभियुक्त 01.सोनू उर्फ पंकज जायसवाल पुत्र स्व0 छांगुर जायसवाल सा0 हरैया थाना सलेमपुर जनपद देवरिया ।

➡थाना बनकटा —मु0अ0स0 320/2020

धारा 354ख,376,506,511 भा0द0वि0 व 67 आई0टी0 एक्ट व 7 / 8 पास्को एक्ट नाम पता अभियुक्त 01.अभिन्नदन पासवान पुत्र स्व0 शिवनाथ पासवान 02. गुलशन कुमार पासवान पुत्र हंसनाथ पासवान साकिनान बतरौली थाना बनकटा जनपद देवरिया ।

***03. निरोधात्मक कार्यवाही-**

दिनांक 30.07.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➡जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 38 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

04. जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-

दिनांक 30.07.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡वाहन चेकिंग के दौरान 126 वाहनों से 1,20,000 रुपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।

